

The Corporate Relationship Department, BSE Limited Ist Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P.J. Towers Dalal Street, **Mumbai 400 001** 

Scrip Code-503806

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E) **Mumbai 400 051** 

Scrip Code-SRF

SRF/SEC/BSE/NSE 10.09.2020

Dear Sirs.

#### Sub: Submission of copies of newspaper publication for Postal Ballot Notice

In addition to our intimation dated 08.09.2020, we wish to inform that SRF Limited has issued a newspaper advertisement for Postal Ballot under applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with relevant rules made thereunder, and other applicable laws & regulations, as amended and in terms of the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India vide its General Circular Nos.14/2020 dated April 08,2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 22/2020 dated June 15, 2020 in view of COVID-19 pandemic ("MCA Circulars").

Enclosing a copy of Newspaper Advertisement dated September 09, 2020, published in 'Financial Express' and dated September 10, 2020 in 'Jansatta' (electronic editions available). The same has been made available on the Companies website www.srf.com

Please take the above on record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **SRF LIMITED** 

Rajat Lakhanpal

VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

Encl: A/a

SRF LIMITED
Block-C Sector 45
Gurugram 122 003
Haryana India
Tel: +91-iZA-4354400
Fax: +91-iZ4-4354500
E-mail: info@srfrcom
Website : wwwsrfrcom
Regd. Office:
Unit No. 236 Sr 237, 2nd Floor
DLF Galleria, Mayur Plate
Noida Link Road
Mayur Vihar Phase 1 Extension
Delhi 110991

### **FINANCIAL EXPRESS**



(An Infrastructure Investment Trust registered with Securities & Exchange Board of India vide Registration No. IN/InvIT/16-17/0005)

Principal Place of Business: F-1, The Mira Corporate Suites, 1&2, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi 110065 Tel: +91 84509 96408; Compliance Officer: Swapnil Patil;

E-mail: complianceofficer@indigrid.co.in; Website: www.indigrid.co.in

#### ADDENDUM TO NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING TO UNITHOLDERS

We draw attention of all Unitholders of India Grid Trust (IndiGrid) towards Notice dated September 3, 2020 convening Third Annual General Meeting (AGM) of India Grid Trust (IndiGrid) on Monday, September 28, 2020 at 4.00 p.m. IST through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). This addendum should be read in conjunction with the notice of Annual General Meeting.

Esoteric II Pte. Ltd., an affiliate of KKR & Co. Inc., ("Esoteric"), had requested IndiGrid, the Trustee and the

Investment Manager, by its Notice dated September 8, 2020 (the "Esoteric Notice"), to convene meeting of Unitholders of IndiGrid to obtain approval under Regulation 22(7) of SEBI (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, as amended, including notifications, circulars issued thereunder, from time to time (the InvIT Regulations) to designate Esoteric as a 'sponsor' of IndiGrid, subject to receipt of necessary approvals and consents, along with the current sponsor (being, Sterlite Power Grid Ventures Limited, "SPGVL" or "Sponsor"). Pursuant to Esoteric Notice, the Board of Directors of Investment Manager of IndiGrid on September 8, 2020 approved designation of Esoteric as a Sponsor of IndiGrid in addition to SPGVL, subject to fulfillment of statutory

requirements in accordance with the provisions of InvIT Regulations. In view of the above, an addendum to Notice of AGM is issued to seek approval of Unitholders to induct Esoteric as an "Inducted Sponsor" of IndiGrid and amend the Trust Deed dated October 21, 2016, as amended from time

to time, to induct Esoteric as a sponsor of IndiGrid in addition to Sterlite Power Grid Ventures Limited.

An addendum to Notice of AGM dated September 8, 2020 is sent only by electronic mode to those Unitholders whose email addresses are registered with the IndiGrid / Depositories in accordance with the SEBI circular dated June 22, 2020 and July 17, 2020. Unitholders may note that the Addendum to Notice of the AGM will also be available on the IndiGrid's website www.indigrid.co.in, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

The Unitholders are requested to update their e-mail addresses with the Depository Participant. Alternatively, Unitholders can update their contact details such as Address, E-mail ID & mobile No. by sending e-mail to KFIN Technologies Pvt. Ltd. at support.indiagrid@kfintech.com. This will help the IndiGrid to share communications with Unitholders during Covid-19 appropriately.

For India Grid Trust

By Order of the Board

Sterlite Investment Managers Limited

(as the Investment Manager to India Grid Trust) Sd/-

Swapnil Patil

Company Secretary & Compliance Officer

Mumbai, September 08, 2020



## **SRF LIMITED**

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091 Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurugram-122003 Tel: +91-124-4354400, Fax No: +91-124-4354500 Email: cs@srf.com; Website: www.srf.com

#### NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to provisions of Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the act") read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), as amended, SRF Limited ("the Company") is seeking approval from its Members for passing of a Special Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated August 31, 2020 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting.

In terms of the relevant provisions of the Act read with the Rules and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings/conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular Nos.14/2020 dated April 08,2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 22/2020 dated June 15, 2020 in view of COVID-19 pandemic ("MCA Circulars"), the Postal Ballot Notice along with the instructions regarding e-voting has been sent only by email on Tuesday, September 08, 2020 to all those Members, whose email address is registered with the Company or with the Depositories/Depository Participants or Registrar & Transfer Agent ("RTA") Kfintech Technologies Private Limited ("KFin") and whose names appear in the Register of Members/ list of Beneficial Owners as on Friday, September 04, 2020 ("Cut-off Date"). Members are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

The Postal Ballot Notice is available on the website of the company at www.srf.com and on the e-voting website of KFin at https://evoting.karvy.com As per the MCA Circulars and in view of non-availability of postal and courier services, physical copy of Postal Ballot Notice, Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope have not been sent to the Members for this Postal Ballot.

Members who have not registered their email address and in consequence could not receive the Postal Ballot Notice may temporarily get their email address registered with the Company's RTA, KFin by accessing the link https://karisma.kfintech.com/emailreg and following the registration process given below. Alternatively, the process may be completed by accessing the link under Investor Section of the Company's website on www.srf.com.

### Electronic folios:

- (a) Visit the link <a href="https://karisma.kfintech.com/emailreg">https://karisma.kfintech.com/emailreg</a> (b) Select the company name i.e. SRF Limited
- (c) Shareholder to enter DPID-CLID / Folio No. and PAN No.
- (d) Shareholder to enter the email id and Mobile No.
- (e) System check the authenticity of the client id and PAN and send the different OTPs to (f) Mobile and Email to Validate. (g) Shareholder to enter the OTPs received by SMS and Email to complete the validation process.
- (OTPs will be valid for 5 min. Only). (h) System confirms the email id for the limited purpose of serviced postal ballot notice.
- (i) System will send the notice & procedure for e-voting to the email given by shareholder
- Physical folios:
- (a) Visit the link <a href="https://karisma.kfintech.com/emailreg">https://karisma.kfintech.com/emailreg</a> (b) Select company name i.e. SRF Limited
- (c) Shareholder to enter physical Folio No and PAN No.
- (d) If PAN No is not available in the records, shareholder to enter one of the Certificate No. (e) Shareholder to enter the email id and Mobile No.
- (f) System check the authenticity of the Folio No. and PAN/Certificate No and send the different OTPs to Mobile and Email to Validate.
- (g) Shareholder to enter the OTPs received by SMS and Email to complete the validation process. (OTPs will be valid for 5 min. Only).
- (h) If PAN is not available, system will prompt to upload the duly signed scan copy of the PAN.
- (i) System confirm the registration of email id.
- (j) System will send the notice & procedure for e-voting to the "email "given by shareholder.

Post successful registration of the email address, the Members are requested to permanently register their email address, in respect of electronic holdings with the Depository through the concerned Depository Participant and in respect of physical holdings with the Company's RTA, KFin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, NanakRamguda, Hyderabad 500 032, India by following due procedure.

Mr. Arunesh Dubey Proprietor of M/s Arunesh Dubey & Co., Practicing Company Secretaries (FCS: 7721 / CP No. 14054) has been appointed as "Scrutinizer" for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

In compliance with the provisions of Sections 108 and 110 of the Act read with the rules made there under, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended, ("the Listing Regulations") and in accordance with the MCA Circulars, the Company has engaged KFin as the agency for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically ("remote e-voting"). Voting rights of the members shall be reckoned as on the Cut-off Date. Person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat this notice for information purposes only.

The period of evoting shall commence on Wednesday September 09, 2020 at 9.00 A.M. (IST) and end on Thursday, October 08, 2020 at 5.00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by KFin for voting after the abovementioned time. No voting shall be allowed thereafter once the vote is confirmed by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

The result of the Postal Ballot shall be announced not later than Friday, October 09, 2020 at the Corporate Office of the Company. The resolution, if passed by the requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date specified by the Company for e-voting, i.e. Thursday, October 08, 2020. The result of the Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be placed on the Company's

website, i.e. www.srf.com and on the e-voting website of KFin i.e. https://evoting.karvy.com.The same shall simultaneously be communicated to the BSE LIMITED (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE), Exchanges on which the shares of the Company are listed and displayed at the registered office and Corporate office of the company.

In case of any query/concern/grievance, Members may refer the (i)remote e-voting user manual or (ii) Help & Frequently asked questions (FAQs), available at the downloads section of https://evoting.karvy.com or may contact Mr B.V.Kishore, Deputy Manager-Corporate Registery, KFin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, NanakRamguda, Hyderabad 500 032, India, at email: einward.ris@kfintech.com ;1800-3454-001 (toll free) or may write to the Company Secretary at cs@srf.com.

> By Order of the Board of Directors For SRF Limited Sd/-

Rajat Lakhanpal VP (Corporate Compliance) & Company Secretary Bilcare Research **Bilcare Limited** 

Regd. Office: 1028, Shiroli, Pune 410505. Tel.: +91 2135 647501 Email: cs@bilcare.com Website: www.bilcare.com CIN: L28939PN1987PLC043953

Notice to the Shareholders of 33" Annual General Meeting. Book Closure & e-Voting Information of Bilcare Limited

NOTICE is hereby given that the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on 29th September, 2020 at 12.00 p.m. (IST) through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate

Affairs ("MCA") has vide its Circular No. 20 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14 dated April 8, 2020 and Circular No. 17 dated April 13, 2020 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of AGM through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year

2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI dated May 12, 2020. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 will also be available on the Company's website www.bilcare.com; website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all

its Members as of the cutoff date i.e 22" September 2020 to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. The E-voting as aforesaid will commence on Saturday, 26" September 2020, 9.00 A.M. IST to Monday, 28th September 2020, 5.00 PM IST. The E-voting shall not be allowed beyond 05:00 P.M. (IST) on 28" September 2020. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM Registration of E-mail ID details:

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address. In case the shareholder has not registered his/her/their email address with

(i) Shares held in Physical mode: Kindly submit letter duly signed by the shareholder(s) alongwith self attested copies of PAN Card and Address Proof requesting our RTA, Link Intime India Private Ltd. to update their

Email ID (ii) Shares held in Demat mode: The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register their email address in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

All communications/queries in this respect should be addressed to our RTA, Link Intime India Private Limited to its email address pune@linkintime.co.in. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule No.10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, and

Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the company shall remain closed from Wednesday, 23 September 2020 to Tuesday, 29 September 2020 (both days inclusive) for the purpose of 33" AGM of the Members of the Co By the order of the Board of Directors

For Bilcare Limited

Prabhavi Mungee

Company Secretary

Date: 7th September, 2020

INDRAPRASTHA MEDICAL CORPORATION LIMITED Regd. Office: Sarita Vihar, Delhi-Mathura Road, New Delhi – 110 076 (India) Apollo Corporate Identity Number: L24232DL1988PLC030958
Phone: 91-11-26925858, 26925801, Fax: 91-11-26823629
E-mail: imcl@apollohospitals.com, Website: delhi.apollohospitals.com

#### NOTICE OF 32<sup>ND</sup> ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

#### **Annual General Meeting** Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the

members of Indraprastha Medical Corporation Limited will be held on Tuesday 29 th September 2020 at 10:30 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set forth in the notice of

In view of restrictions on the movement across the country and social distancing guidelines to be followed due to the outbreak of the COVID-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with Circulars No. 14/2020 dated April 08, 2020 and Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), allowed Companies to hold AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). Hence, in compliance with these Circulars, the AGM of the Company will be conducted through VC/OAVM.

The procedure to join the meeting through VC/OAVM is provided in the notice of AGM. Also, in terms of the aforesaid Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, the Notice (which forms part of Annual Report) of the 32nd AGM along with the full annual report, has been sent only in electronic form to those members whose email address are registered with the Company or with their depository participants. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report 2019-20 through email has been completed on Monday, 7th September 2020. Requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM along with Annual Report for the Financial Year 2019-20 have been dispensed with in terms of the SEBI Circular mentioned above. Notice of AGM along with Annual Report for the year 2019-20 are also available on website of the Company at www.delhi.apollohospitals.com and website of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

## Remote E- Voting

n compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and Secretarial Standard on General Meetings (SS2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting Services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting provided in the Notice of the AGM carefully. The details of the e-voting facility are as under:

- The remote e-voting period shall remain open from Saturday, 26th September 2020 (9:00 a.m.) to Monday, 28th September 2020 (05:00 p.m.).
- Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 22 nd September, 2020 may obtain the login ID and password by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a>. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
- ii. The remote e-voting shall be disabled by NSDL after 05.00 p.m. on Monday, 28 th September, 2020, and Members will not be allowed to vote after the aforesaid time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- The facility of voting through electronic voting system shall be made available at AGM (detailed manner of attending AGM through VC has been mentioned in the notes of AGM Notice). The members who have cast their vote by remote evoting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting.

The Company has appointed Mr. Baldev Singh Kashtwal, Practicing Company

- Secretary (Membership No. FCS 3616 & Certificate of Practice No. 3169) as the Scrutinizer for ensuing AGM to scrutinize the voting process in a fair and ii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs)
- for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in /pallavid@nsdl.co.in, Tel: +91 22 24994545 /4360 /4738. **BOOK CLOSURE**

Date: 08-09-2020

Place: New Delhi

Notice is also hereby given, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder read with Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 19th September, 2020 to Tuesday, 29th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Indraprastha Medical Corporation Limited

Priya Ranjan AVP - Corporate Affairs & Legal (Company Secretary & Compliance Officer)

ASSAM ENTRADE LIMITED

CIN NO. U20219WB1985PLC096557 Regd Office: 16 TARA CHAND DUTTA STREET, 2ND FLOOR, KOLKATA-700073

Website: www.assamentrade.com email: assamentrade1985@gmail.com Tel.No.: 0512-2361551 Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020

(Rs in lacs) Consolidated Standalone For the quarter ended For the quarter ended **Particulars** vear ende vear ended 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020 30.06.2020 31.03.2020 30.06.2019 31.03.2020 (Audited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited 115.421 232.530 1062.746 1063.321 Total income from operations 96.947 8.422 165.570 97.833 8.642 165.784 Net profit for the period before tax Net profit for the period after tax 68.025 91.354 4.429 153.338 68.115 4.649 153.497 Total Comprehensive income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) 91.354 4.429 153.338 91.350 4.649 153.497 143,979 143.979 143.979 143.979 143.979 143,979 143.979 143.979 Equity share capital 5705.414 5120.826 Earnings per share (EPS) of Rs 10/- each Basic and diluted EPS (Rs per share 4.725 6.345 0.308 10.650 4.731 6.345 0.323 (not annualised excluding year end)

Notes: The above is an extract of the detailed format of quarter end financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com) and the Company (www.assamentrade.com) For Assam Entrade Limited

Place: Kanpur Date:- 07/09/2020 Sd/-(Nishant Gupta) Managing Director



#### Registered Office: 7th Floor, Popular House, Ashram Road Ahmedabad - 380 009. Work: 745, Kadi-Thor road, Kadi - 382 715 Dist. : Mehsana (North Gujarat) E-mail: nkil@nkproteins.com, Web: www.nkindustriesltd.com

N. K. Industries Limited

CIN: L91110GJ1987PLC009905, Ph.: +91-79-6630 9999 NOTICE OF THE 32<sup>ND</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING & BOOK CLOSURE .NOTICE is hereby given that the 32°d Annual General Meeting (AGM) of the Members of N.K. INDUSTIRESLIMITED ('the Company') will be held on Wednesday, 30° September, 2020 at 4:00 p.m through Video

In terms of MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 32<sup>nt</sup> AGM and the Annual Report 2019-20 including the Audited Financial Statements for the year ended 31<sup>nt</sup> March, 2020 has been sent via email on 8<sup>nt</sup> September, 2020, to those Members whose email address are registered/updated with the Company/ Depository Participants. The Notice of the 32 AGM and the Annual Report is also available on the website of the Company at www.nkindustriesltd.com. website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and NSE Limited at www.nseindia.com\_and the AGM Notice is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (e-voting agency of the Company) at www.evotingindia.com.

Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility, to transact the business as set out in the Notice of the

32" AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed there under and

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('LODR Regulations') read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8" April, 2020, 13" April, 2020 and 5" May, 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12" May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular'), without the physical presence of the Members at a common venue.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made there under and as per Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 24" September, 2020 to Wednesday, 30" September, 2020 (both days inclusive), for the purpose of 32" AGM of the Company. The cut-off date / record date for the purpose of ascertaining the eligible shareholders to participate in the AGM and for payment of dividend, if approved at the AGM, is Wednesday, 23rd September, 2020.

4. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is iding its members the 'Remote e-voting' facility provided by CDSL to cast their vote on all the resolutions set fort in the said Notice:

The remote e-voting commences on Sunday, 27<sup>th</sup> September, 2020 (9:00 a.m.) and ends on Tuesday, 29<sup>th</sup> September, 2020 (5:00 p.m.). During this period members holding shares as on the cut-off date may cast their vote by remote e-voting before the AGM. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Additionally, the facility for e-voting shall also be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM. Members who have exercised their right to vote through remote e-voting may participate in the general meeting but shall not be allowed to vote again in the

The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, 23<sup>rd</sup> September, 2020. Any person, who is a member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote electronically through remote e-voting or e-voting facility at the AGM on all the resolutions set forth in the Notice of AGM.

by the Company and whose names appear in the list of beneficial owners maintained by depositories (CDSL & NSDL as on cutoff date can exercise their voting rights by following the procedure as mentioned in the said Notice of AGM. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-voting from the e-voting system, you may refer the

Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after dispatch of notice of AGM

Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi,

Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. By Order of the Board,

Date: 8th September, 2020 Place: Ahmedabad

Trusha Shah Company Secretary/Compliance Officer

For, N. K. Industries Limited

September 7, 2020

# ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

**ICICI Prudential Asset Management Company Limited** Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

(₹ per unit)

Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com Central Service Office: 2<sup>nd</sup> Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.

Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund and ICICI Prudential Medium Term Bond Fund (the Schemes) Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential

Mutual Fund has approved declaration of the following dividend under the dividend option of the Schemes, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e on September 14, 2020\*: Name of the Schemes/Plans Dividend NAV as on

	(Face value of ₹ 10/- each) <sup>\$#</sup>	(₹ Per unit)
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt	t Fund	,
Quarterly Dividend	0.0989	10.8554
Direct Plan - Quarterly Dividend	0.1047	11.0962
Half Yearly Dividend	0.6494	11.0995
Direct Plan - Half Yearly Dividend	0.6750	11.3945
Annual Dividend	1.2771	11.7651
Direct Plan - Annual Dividend	1.3193	11.9933
ICICI Prudential Medium Term Bond Fu	und	
Half Yearly Dividend	0.6585	11.0533
Direct Plan - Half Yearly Dividend	0.7187	11.5323
\$ The dividend payout will be subject	to the availability of dis	stributable surplus an

may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the dividend option of the Schemes.

# Subject to deduction of applicable statutory levy.

New Delhi

\* or the immediately following Business Day, if that day is a Non - Business Day.

Dividend will be paid to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the dividend option of the Schemes, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend option of the Schemes would fall to the extent of dividend payout and statutory levy (if applicable).

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Place: Mumbai Date: September 8, 2020 **Authorised Signatory** 

No. 005/09/2020 To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

and mobile number to support paper-less communications. To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit <a href="https://www.iciciprumf.com">https://www.iciciprumf.com</a> or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

financialexp.epap.in

September 08, 2020

Gurugram

Membership No. A12725

the Company/its RTA/Depositories; the following instructions to be

Place: Pune





मौसम

तापमान अधिकतम-35.6 डि.से.

जनसत्ता.

नई दिल्ली सूर्योदय- 6:03

नर्ड दिल्ली. 10 सितंबर, 2020

सूर्यास्त- 18:33 न्यूनतम- 27.4 डि.से.

बढ़ रहे कोरोना मामलों पर बोले मुख्यमंत्री

# सख्ती से करें निर्देशों का पालन

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 9 सितंबर।

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संक्रमण नियंत्रणा के लिए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन, मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों, सभी सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और लैब संचालक शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आ रहे लोगों व कुछ लोगों की ओर से जांच कराने में लापरवाही करने की वजह से कोरोना के मामलों में पिछले दिनों कुछ वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मामले थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ज्यादा जांच करने वाले अस्पतालों को हर तरह की मदद करने व अस्पतालों में बिस्तरों की कमी न

होने देने के निर्देश दिए। बैठक में यह बात सामने आई कि कोरोना जांच दोगुना होने के साथ-साथ अब अपने गृह राज्य जाने वाले लोग रोजगार की तलाश में वापस आ गए हैं। अनलॉक की वजह से सभी तरह की गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिसके चलते भी संक्रमण थोड़ा बढ़ा है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वे जांच कराने में लापरवाही न बरतें. ताकि अन्य लोगों को संक्रमित

#### अस्पताल आने के लिए नहीं हो एंबुलेंस की कमी

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों (एमएस) को निर्देश दिया है कि कोविड–19 मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में एंबुलेंस की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। एंबुलेंस के किसी कॉल को मिस न किया जाए। इसी प्रकार कोरोना एप्लीकेशन पर अस्पतालों में उपलब्ध कोविड बिस्तर, वेंटिलेटर, इमरजेंसी और ऑक्सीजन बिस्तर की जानकारी हमेशा अपडेट की जाए, ताकि मरीज अपने मनचाहे अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा सके। लैब संचालकों को निर्देश दिया कि जांच में किसी को दिक्कत न हो। जांच के लिए डाक्टर के पर्ची की मांग न की जाए।

होने से बचाया जा सके।

#### भीड़ वाले इलाकों में होगी सख्ती

अरविंद केजरीवाल ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए जारी दिशानिर्देशों का सख्ती के साथ पालन कराया जाए। मार्केट, भीड़ भाड वाले स्थानों और सार्वजनिक स्थलों आदि पर दो गज की दूरी का पालन किया जाए। साथ ही बिना मास्क पहन कर घर से निकलने वाले लोगों पर भी सख्ती की जाए।

## जरूरत हो तो पांच दिन का कार्य दिवस लागू करे सरकार: भाजपा

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 9 सितंबर

दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सिफारिश की है कि जरूरत होने पर दिल्ली में भी 5 दिन के कार्य दिवस की व्यवस्था लागू की जाए और दो दिन पूर्णतः बंद रखा जाए। इस मामले में भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई है। इसलिए बचाव की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यों को छूट देने में अत्याधिक जल्दीबाजी दिखाई गई है जिसका नतीजा अब दिल्ली भूगत रही है। आज सड़कों एवं बाजारों में अत्याधिक भीड़ है और बाहर से आने वालों पर कोई जांच नहीं है। उन्होंने मांग की है कि अनावश्यक कार्यों जैसे पब एवं रेस्तरां के खुलने के साथ ही मेट्रो के चलने पर भी पुनर्विचार किया जाए। साथ ही सरकार केंद्र एवं दिल्ली सरकार आदि के कार्यालयों एवं निजी प्रतिष्ठानों के खुलने का समय अलग-अलग करे।

# विस सत्र के लिए विधायकों की कोरोना जांच अनिवार्य

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 9 सितंबर।

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 9 सितंबर।

सडक बन रही है।

दिल्ली विधानसभा के 14 सितंबर को होने वाले सत्र के लिए विधायकों की कोरोना जांच अनिवार्य होगी। बुधवार को दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक 11 सितंबर को विधायकों के कोविड जांच के लिए सचिवालय में शिविर लगाया जाएगा। सबह 11 से 1 बजे के बीच उनका कोविड टेस्ट होगा। विधायक विधानसभा परिसर. किसी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवा सकते हैं।

दक्षिणी दिल्ली में जाम से राहत

दिलाएगा मीठापुर गोलचक्कर

दक्षिणी दिल्ली में बदरपुर के नजदीक मीठापुर में

लगने वाले जाम से राहत होगी। दक्षिणी दिल्ली के

सांसद रमेश बिधूड़ी ने लंबित पड़े मीठापुर

गोलचक्कर (बदरपुर विधानसभा) की सड़क के

निर्माण कार्य की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि

कालिंदी कुंज से मुंबई राष्ट्रीय मार्ग तक 6 लेन का रोड

भी हाल ही में मंजूर किया गया है। दिसंबर तक यह

कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिसकी वजह से

गोलचक्कर का निर्माण कार्य रोक दिया गया है, लेकिन

इस मार्ग के खराब होने की वजह से यहां प्रतिदिन

लोगों को जाम में फंसना पड़ता था। यह चौराहा आगरा

नहर के ऊपर है, जो बदरपुर विधानसभा में आता है।

प्रतिदिन लगभग 5 लाख से अधिक की आबादी इस

मार्ग का प्रयोग करती है। इस वजह से लोगों को

सुबह-शाम घंटों जाम से जूझना पड़ता था। यहां यह

स्थिति लगभग 20-30 सालों से बनी हुई थी। सांसद

ने कहा कि पूर्व में 15 वर्ष तक कांग्रेस और 6 साल

से दिल्ली कीर आप सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं

दिया। आम जनता की शिकायत के बाद इसकी योजना

तैयार की गई और उसे लागू किया गया। बाद में सांसद

ने कालकाजी ट्रांजिट कैंप इलाके में चल रहे विकास

# SRE

## एसआरएफ लिमिटेड

सीआईएन : L18101DL1970PLC005197

**पंजीकृत कार्यालय** : द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, इकाई सं. 236 एवं 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, मयूर विहार फेज-I एक्स., दिल्ली-110091

**कॉर्पोरेट कार्यालय** : ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम-122003, दूरभाष : +91-124-4354400, फैक्स : +91-124-4354500, ई-मेल : info@srf.com; वेबसाइट : www.srf.com

#### पोस्टल बेलट की सूचना

सिदस्यों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यथा संशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (''नियम'') के साथ पठित धारा 110 के प्रावधानों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार पोस्टल बैलट सुचना दिनांक 31 अगस्त, 2020 (''पोस्टल बैलट सुचना'') में निर्धारित विशेष संकल्प पारित करने हेतु एसआर लिमिटेड (''कम्पनी'') इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा अपने सदस्यों की स्वीकृति लेने की इच्छुक है।

नियमों के साथ पठित अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के सन्दर्भ में तथा कोविड-19 महामारी की दृष्टि से सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा 20/2020 दिनांक 15 जून, 2020 (''एमसीए परिपत्र'') के माध्यम से ई-वोटिंग द्वारा आम बैठक/पोस्टल बैलट संचालन प्रक्रिया आयोजित करने हेतू कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (''एमसीए'') निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार ई–वोटिंग सम्बन्धित निर्देशों सहित पोस्टल बैलट सुचना केवल ई-मेल द्वारा उन सभी सदस्यों के पास मंगलवार, 8 सितम्बर, 2020 को भेजे जा चुके हैं जिनके ई-मेल पते कम्पनी या डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी भागीदारों अथवा रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेन्ट (''आरटीए'') केफिनटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (''केफिन'') के साथ पंजीकृत हैं तथा जिन सदस्यों के नाम शुक्रवार, 4 सितम्बर, 2020 (''कट-ऑफ तिथि'') तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं। सदस्य अपनी सहमति या असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही दर्ज करा सकेंगे।

पोस्टल बैलट सूचना कम्पनी की वेबसाटि www.srf.com तथा केफिन की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है। एमसीए परिपत्रों के अनुसार तथा पोस्टल एवं कोरियर सेवाओं की अनुपलब्धता को देखते हुए पोस्टल बैलट सूचना, पोस्टल बैलट प्रपत्र तथा प्रीपेड बिजिनेस रिप्लाई लिफाफे इस पोस्टल बैलट हेतु सदस्यों को नहीं भेजे गये हैं।

जिन सदस्यों के ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं जिसके कारण वे पोस्टल बैलट सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं वे https://karisma.kfintech.com/emailreg लिंक को एक्सेस करके तथा नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन करके कम्पनी के आरटीए, केफिन के साथ अपने ई–मेल पते अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से यह प्रक्रिया कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com पर इन्वेस्टर खण्ड के तहत लिंक को एक्सेस करके पूरी की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक फोलियो

- (क) लिंक https://karisma.kfintech.com/emailreg देखें।
- (ख) कम्पनी का नाम अर्थात एसआरएफ लिमिटेड चुनें।
- (ग) शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी/फोलियो नं. तथा पैन नं. प्रविष्ट करें।
- (घ) शेयरधारक ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नं. प्रविष्ट करें।
- (ङ) सिस्टम क्लाइंट आईडी तथा पैन की प्रामाणिकता की जाँच करेगा और पुष्टि के लिए मोबाइल तथा ई-मेल पर विभिन्न ओटीपी भेजेगा।
- (च) शेयरधारक एसएमएस तथा ई-मेल द्वारा प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करके सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे (ओटीपी केवल 5 मिनट के लिए वैध होगा)
- (छ) सिस्टम सर्विस्ड पोस्टल बैलट सूचना के सीमित उद्देश्य हेतु ई-मेल आईडी की पुष्टि करेगा।
- (ज) सिस्टम शेयरधारक द्वारा दिये गये ई-मेल पर ई-वोटिंग हेतु सूचना तथा प्रक्रिया भेजेगा
- (क) लिंक https://karisma.kfintech.com/emailreg देखें।
- (ख) कम्पनी का नाम अर्थात एसआरएफ लिमिटेड चुनें। (ग) शेयरधारक भौतिक फोलियो नं, तथा पैन नं, प्रविष्ट करें।
- (घ) यदि पैन नं. रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है तो शेयरधारक कोई एक प्रमाणपत्र सं. प्रविष्ट करें।
- (ङ) शेयरधारक ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नं. प्रविष्ट करें।
- (च) सिस्टम फोलियो नं. तथा पैन/प्रमाणपत्र संख्या की प्रामाणिकता की जाँच करेगा और पुष्टि के लिए मोबाइल तथा ई-मेल पर विभिन्न ओटीपी भेजेगा।
- (छ) शेयरधारक एसएमएस तथा ई-मेल द्वारा प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करके सत्यापन की प्रक्रिया पुरी करेंगे (ओटीपी केवल 5 मिनट के लिए वैध होगा)
- (ज) यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम पैन की विधिवत हस्ताक्षरित स्कैन प्रति अपलोड करने के लिए सुचित करेगा। ( झ ) सिस्टम ई-मेल आईडी के पंजीकरण की पृष्टि करेगा।
- (ञ) सिस्टम शेयरधारक द्वारा दिये गये ''ई-मेल'' पर ई-वोटिंग हेतु सूचना तथा प्रक्रिया भेजेगा।
- ई-मेल पते के सफल पंजीकरण के उपरान्त सदस्य इलेक्ट्रॉनिक धारिता के मामले में सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ तथा भौतिक धारिता के मामले में कम्पनी के आरटीए, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32, गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500 032, भारत के साथ उचित प्रक्रिया का अनुपालन करके अपने ई-मेल पते स्थायी रूप से पंजीकृत करा लें।

पोस्टल बैलट प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालन के लिए श्री अरुणेश दुबे, प्रोपराइटर मैसर्स अरुणेश दुबे एण्ड कं., कार्यरत सचिव (एफसीएस : 7721/सीपी सं. 15054) को 'संवीक्षक' के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 108 तथा 110 के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित पठित नियमों, यथा संशोधित भारतीय प्रतिभृति एवं

विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 (''सूचीबद्धता विनियम'') एवं एमसीए परिपत्रों के अनुसार कम्पनी ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप (''रिमोट ई-वोटिंग'') से अपने मतदान के लिए सदस्यों को सक्षम करने हेतु रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि तक मान्य होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है उसे इस सचना को केवल सचना के उदुदेश्य से लेना चाहिए।

|ई-वोटिंग प्रारम्भ होने की अवधि बुधवार, 9 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे प्रातः (भा.मा.स.) से प्रारम्भ होगी और बृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर, को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) समाप्त होगी। उपर्युक्त समय के उपरान्त ई-वोटिंग मॉड्यूल केफिन द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इसके पश्चात मतदान की अनुमित नहीं होगी, सदस्य द्वारा मतदान की एक बार पुष्टि हो जाने के उपरान्त बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

पोस्टल बैलट के परिणाम अधिकतम शुक्रवार, 9 अक्टूबर, 2020 तक कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में घोषित किये जायेंगे अपेक्षित बहुमत से पारित होने पर संकल्प को ई-वोटिंग हेतु कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट अन्तिम तिथि अर्थात बृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर, 2020 को पारित माना जायेगा।

संवीक्षक की रिपोर्ट सहित पोस्टल बैलट के परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com तथा केफिन की ई-वोटिंग वेबसाइट https://evotina.karvy.com पर अपलोड कर दिये जायेंगे। इसे तत्काल ही बीएसई लिमिटेड (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंजों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को सूचित किया जायेगा तथा कम्पनी के पंजीकत एवं कॉर्पीरेट कार्यालय पर प्रदर्शित किया जायेगा

किसी पूछताछ/जानकारी/शिकायत के लिए सदस्य https://evoting.karvy.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध (i) रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल अथवा (ii) फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) का सन्दर्भ ले सकते हैं या सम्पर्क करें ।: श्री बी.वी. किशोर, उप-प्रबन्धक-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट सं. 31 एवं 32, गाजीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500 032, भारत, ई-मेल einward.ris@kfintech.com; 1800-3454-001 (टोलफ्री) अथा कम्पनी सचिव के पास cs@srf.com पर लिखें

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार कृते एसआरएफ लिमिटेड

रजत लखनपाल

सदस्यता सं. ए12725

वीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन) एवं कम्पनी सचिव

गुरुग्राम

८ सितम्बर. 2020

भारतीय स्टेट बैंक नगवग्रस्त आस्ति रिकवरी शाखा-।, रिटेल प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड़, नई दिल्ली-110015, फोनः 25419177, 25412977 ई-मेलः sbi.05169@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(8) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम

2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेत् ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभृति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दुष्टिबंधक / गिरवी / प्रभारित है, का भौतिक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राघिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभृत – दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से – प्रतिभृत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वस्तुली हेत् दिनांक 30.09.2020 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

आरक्षित मूल्य बकाया राशियां नीलामी के अधीन कर्जदार(बी) / सम्पर्क हेतु जिसकी वसूली घरोहर राशि (आरबित आवृत्त प्रमारित प्रतिभूति का पता गारंटर(रों)(जी) का प्राधिकृत का नाम मूल्य का 10%) हेतु सम्पत्ति (सम्पत्ति का भौतिक कब्जा) एवं नं. नाम एवं पता बेची जा रही है वृद्धि राशि मै सर्स सिद्धार्थ कम्यूटर रिहायशी सम्पत्ति फ्लैट नं. सी–64, इंदर पुरी नई ਰ. 2,50,03,912.59 श्री शैलेश रंजन ₹ 294.00 लाख दिनांक 28.11.2014 इंटरनेशनल (पार्टनरशिप फर्म) दिल्ली-110032 में स्थित (प्रथम तल सामने की मो. 8800447600 ₹ 29.40 लाख ए-62, नीचला भूतल, इंदरपुरी, तरफ बिना छत के अधिकार के), क्षेत्रफल 440 वर्ग तक प्लस भविष्य क ब्याज, आकरिमक नई दिल्ली-110021 में स्थित ₹ 1.00 लाख

खर्चे इत्यादि ई—नीलामी की तिथि : 30-09-2020 समय 60 मिनट दोपहर 12.00 बजे से अर्पाह्न 01.00 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय : 25-09-2020 पूर्वाह 11.00 बजे से अर्पाह 03.00 बजे तक

अनरोध पत्र, केवाईसी दस्तावेजों, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की तिथि व समय दिनांक 29-09-2020 अपराहन 4.00 बजे तक या उस से पहले (प्रतिलिपि एवं मुल प्रति) व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन माध्यम से RTGS/NEFT

ई-नीलामी हेत् नियम व शर्ते:-1. ई—नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता नैसर्स ई—प्रवयोरमें टैक्नॉलोजीज लिमिटेड (Auction Tiger), **हेल्पलाईन नं. 079-40230833/832 के माध्यम से वेबपोर्टल** https://sbi.auctiontiger.net पर ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्ते आदि निविदा दस्तावेज इन वेबपोर्टल साईट https://sbi.auctiontiger.net पर

2. अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रमार नहीं है। तथापि इच्छूक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों 🖊 अधिकारों 🖊 बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। ई—नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता/वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही कोई वचनवद्धता/प्रतिवद्धता या प्रतिनिधित्व

सम्पत्ति(याँ) की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारो / ऋणभारो के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

3. यह ई-नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अनुसार की

4. ई—नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित की गई है। https://auctiontiger,net, https://www.sbi.co.in

दिनांक 10.09.2020, स्थान : नई दिल्ली

हस्ता0 /- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

# VOITH

## वोईथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 113/114-ए, सेक्टर-24, फरीदाबाद-121005, हरियाणा CIN: L74899HR1968PLC004895

फोनः +91 129 4292200, फैक्सः +91 129 2232072 ई-मेलःvoithfabrics.faridabad@voith.com, वेबसाईटः www.voithpaperfabricsindia.com

> 50वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 50वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 3.30 बजे अप. ( आईएसटी) में 113/114-ए, सेक्टर-24, फरीदाबाद-121005, हरियाणा में पंजीकृत कार्यालय में, मानद स्थल में विडियो कान्फ्रैंसिंग (''वीसी'') अथवा अन्य ऑडियो विज्ञल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए''), भारत सरकार द्वारा जारी सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि 05 मई, 2020 तथा सेबी सर्क्युलर तिथि 12 मई, 2020 के अनुपालन में कम्पनी ने वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ 50वीं एजीएम की सूचना ऐसे सभी सदस्यों को ई-मेल कर दिया है जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत हैं। इस वर्ष वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता विनियामकों द्वारा हटा दी गई है। भौतिक पद्धत्ति अथवा डिमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्य सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष

व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर से मतदान की अनुमति उन्हें नहीं दी जायेगी। जबिक, रिमोट ई-वोटिंग सुविधा वैकल्पिक है तथा विडियो कान्फ्रैंसिंग (''वीसी'') अथवा अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से एजीएम में उपस्थिति के समय सदस्य ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं।

ई-वोटिंग के लिये कट-ऑफ तिथि बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 है तथा जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद मतदान के लिये ई-वोटिंग पोर्टल बाधित कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा एक बार किसी प्रस्ताव पर मतदान कर देने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन करने की अनुमित नहीं दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर वांछित लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.voithpaperfabricsindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों अथवा स्पष्टीकरण के लिये सदस्यगण सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQ's") तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें। ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी भी समस्या के लिये सदस्यगण investorcare.vffa@voith.com पर ईमेल द्वारा कम्पनी से सम्पर्क कर सकते हैं।

पुनः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में ध्यान रहे कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक यदि घोषित होता है, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लाभांश की प्राप्ति के लिये शेयरधारकों की अधिकारिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

वोईथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड के लिये

तिथि: ७ सितम्बर, २०२० स्थानः फरीदाबाद

सी.एस. गगलिआनी कम्पनी सचिव सदस्यता सं.: एफ-4301

पंजीकृत कार्यालय : सेक्टर 128, नोएडा-201 304, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष : +91 (120) 2470800 कॉर्पोरेट कार्यालय : 'जेए हाउस', 63, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057, दूरभाष : +91( 11 ) 49828500, फैक्स : 26145389 वेबसाइट : www.jalindia.com, ई-मेल : jal.investor@jalindia.co.in

## 23वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग सूचना तथा बुक क्लोजर आदि

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम सूचना दिनांक 26 अगस्त, 2020 में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए कॉर्पोरेट मामले मन्त्राल (एमसीए) के परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र') के साथ पठित परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा कॉमन स्थान पर सदस्यो की भौतिक उपस्थिति के बिना जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के सदस्यों की 23वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विज़ुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 12.30 बजे अप. आयोजित की जायेगी। सचना तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सदस्यों के उपस्थित होने के निर्देश सूचना के नोट मे उल्लिखित हैं और एजीएम में शामिल होने का वेबलिंक https://www.evotingindia.com है। वीसी/ओएवीएम के माध्मय से बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य रं की जायेगी।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में 23वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट एवं उससे सम्बद्ध होने वाले अन्य दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए लिंक का ई-मेल कम्पनी के उन सदस्ये के पास 8 सितम्बर, 2020 को भेज दिये गये हैं जिनके ई-मेल पते 28 अगस्त, 2020 तक कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। ये कम्पनी की वेबसाइट www.jalindia.com, स्टॉक एक्सचेंजों जैसे बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है एवं एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटर्र सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2020 तक भौतिक य अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य पर एजीएम की तिथि से पूर्व इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई-वोटिंग'') तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग (''ई-वोटिंग'') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीडीएसएर द्वारा प्रावधानित ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना मतदान करने की सुविधा प्रदान रही है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

- i. एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्य का लेन-देन रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा एजीएम के दौरान किया जायेगा।
- ii. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 27 सितम्बर, 2020 (9.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.) प्रारम्भ होगी;
- iii. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.) समाप्त होगी; iv. रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की पात्रता निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर,
- v.) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है, वह नीचे दिये गये पते पर सीडीएसएल के पास निवेदन भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि यदि व्यक्ति पहले से ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपना मतदान करने हेतु वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है;
- सदस्य ध्यान दें कि (क) उपर्युक्त तिथि एवं समय के उपरान्त मतदान हेतु रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा और सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान करने के उपरान्त बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमित नहीं होगी, (ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं किन्तु एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वे दुबारा मतदान करने के पात्र नहीं होंगे, (ग) 23वीं एजीएम में शामिल होने वाले सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे, (घ) केवल वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविध ग्रहण करने के पात्र होंगे।
- (ङ) मताधिकार (रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु) कट-ऑफ तिथि तक कम्पनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य के अनुपात में होंगे।
- (च) एजीएम में उपस्थित होने तथा ई-वोटिंग सिस्टम से मतदान करने से सम्बन्धित किसी पूछताछ या समस्या के लिए आप www.evotingindia.com के हेल्प खण्ड के तहत फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (''एफएक्यू'') तथा ई-वोटिंग मैनुअल का सन्दर्भ लें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिखें या सम्पर्क करें : नितिन कुन्दर (022-23058738) अथवा महबूब लखानी (022-23058543) अथवा श्री राकेश दलवी (022-23058542)।
- (छ) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान हेतु सुविधा से सम्बन्धित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबन्धक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एन.एम. जोर्श मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) मुम्बई-400013 को सम्बोधित करें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें अथवा 022-23058542/43 पर कॉल करें।
- (ज) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य जिनके ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं वे अपना नाम, फोलिये नम्बर तथा सम्पूर्ण पता, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति तथा कम्पनी के साथ पंजीकृत सदस्यों के पते के प्रमाण के रूप में दस्तावेज की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) का उल्लेख करते हस्ताक्षरित निवेदन पत्र की स्कैन्ड प्रति jal.investor@jalindia.co.in पर ई-मेल द्वारा भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं। अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपना ई-मेल पता अपने डिपॉजिटरी के साथ अपडेट कर
- (झ) अधिनियम की धारा 91 तथा सूचीबद्धता विनियम के विनियम 42 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ 24 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

कृते जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड एम.एम. सिब्बल संयुक्त अध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव सदस्यता संख्या एफसीएस-3538













स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 09.09.2020



कार्यों का भी जायजा लिया।